



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 1980/अषाढ़ 11, 1902

No. 187]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 1980/ASADHA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्त संश्लेष  
(राजस्य विभाग)  
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1980

सीमा शुल्क

सा.का.नि. 391(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकीहित में ऐसा करना आवश्यक है नेपाल में विनिर्मित ऐसे माल को जो नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है, जिसमें कम से कम 80 प्रतिशत नेपाली या नेपाली और भारतीय सामग्री समाविष्ट है, जब वह नेपाल से भारत में आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि ऐसा माल, वस्तुतः नेपाल में विनिर्मित किया गया है और उसमें कम से कम 80 प्रतिशत नेपाली या नेपाली और भारतीय सामग्री समाविष्ट है और

यह कि प्रत्येक मामले में माल का भौतिक निवेश नेपाल की हिज मजेस्टी की सरकार द्वारा सम्पूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया है और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

अनुसूची

क्र. सं. माल का वर्णन

1. बिस्फुट
2. परिष्कृत घी
3. अधिक उबाली मिठाइयां
4. साल बीज तेल, धान अंग तेल, साल बीज निष्कर्षण और धान अंग निष्कर्षण
5. स्ट्रा बोर्ड
6. प्लई वुड
7. मंगनेसाइट
8. संगमरमर ब्लॉक, शिला खण्ड और टुकड़े ।

[सं. 132/सीमाशुल्क/पत्र सं.]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 2nd July, 1980

## NOTIFICATION

## CUSTOMS

**G.S.R. 391(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Schedule below which are manufactured in Nepal and containing not less than 80 per cent of Nepalese materials or Nepalese and Indian materials, when imported into India from Nepal, from the whole of the duty if customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) :

Provided that the importer produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that such goods have, in fact, been manufactured in Nepal and contain not less than 80 per cent of Nepalese or Nepalese and Indian materials and that the material inputs of the goods have been duly certified by His Majesty's Government of Nepal and approved by the Government of India in each case.

## SCHEDULE

## S. No. Description of—goods

1. Biscuits
2. Refined Ghee
3. High boiled Sweets
4. Sal seed oil, rice bran oil, sal seed extraction and rice bran extraction
5. Straw Board
6. Plywood
7. Magnesite
8. Marble blocks, slabs and chips.

[No. 132/Customs/F. No. 552/117/79-LCI]

**सा. का. नि. 392(अ).**—केन्द्रीय सरकार. वित्त अधिनियम, 1980 (1980 का 13) की धारा 4 की उपधारा (4) के माध पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकीहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 41-सीमाशुल्क, तारीख 25 मार्च, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं. 249 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

250 सं. 132-सीमाशुल्क, तारीख 2 जुलाई, 1980 ।  
[सं. 133/सीमा शुल्क/पत्र सं. 552/117/79-एल. सी. 1]

एन, कृष्णमूर्ती, अवर सचिव

**G.S.R. 392(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 4 of the Finance Act, 1980 (13 of 1980), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) 41-Customs dated the 25th March, 1980, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 249 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

250 No. 132-Customs, dated 2nd July, 1980.

[No. 133/Customs/F. No. 552/117/79-LCI]

N. KRISHNAMURTHY, Under Secy.